



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 अग्रहायण 1938 (श०)
(सं० पटना 1054) पटना, मंगलवार, 13 दिसम्बर 2016

सं० 08/अभि०-03-18/2014,सा०प्र०-9427

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

5 जुलाई 2016

श्री बैधनाथ दास, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 392/08, तत्कालीन अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8526, दिनांक 30.05.2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-365, दिनांक 27.07.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जुलाई महीने के अन्त तक उनके समक्ष कतिपय ऐसे मामले हैं जिसमें जाँच संपन्न हो चुका है अथवा जाँच के अन्तिम चरण में है। तत्पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12626, दिनांक 26.08.2015 एवं पत्रांक-17089, दिनांक 11.12.2015 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संबंधित विभागीय कार्यवाही के मामले में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त) सम्प्रति महानिदेशक, सेन्टर फॉर गुड गवर्नैस बिहार, पटना द्वारा ही जाँच पूर्ण कराया जाय। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-17561, दिनांक 21.12.2015 द्वारा उन्हें संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। लेकिन जाँच प्रतिवेदन अन्ततः अप्राप्त रहा।

3. वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र ज्ञापांक-8617, दिनांक 15.06.2016 द्वारा श्री श्रीवास्तव के समक्ष जाँचाधीन/लंबित मामलों को वापस लेने एवं विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है। जिसपर माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

4. अतः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8617, दिनांक 15.06.2016 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री श्रीवास्तव के समक्ष जाँचाधीन इस मामले को वापस लेते हुए विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को पुनः जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. जाँच पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि श्री दास के विरुद्ध लंबित मामलों की सुनवाई पूर्ण करते हुए शीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

6. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8526, दिनांक 30.05.2013 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1054-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>